



श्री महाराजा अग्रसेन सेवा संस्थान

D-3, श्रीजी टावर, गुरुकुल के पास, ड्राईव-इन रोड, अहमदाबाद-380052.

Ph./Fax : 079-27913250, E-mail : info@agrasensamaj.org, Web : www.agrasensamaj.org

सदस्यता आवेदन पत्र

श्रीमान मंत्री महोदय,

निवेदन है कि मैं / हम श्री महाराजा अग्रसेन सेवा संस्थान का सदस्य बनना चाहते हैं और प्रतिज्ञा करते हैं कि संस्था के संविधान एवम् नियमों का पूर्णतः पालन करेंगे। अतः सदस्यता प्रदान कर अनुग्रहित करें।

१) आवेदक का नाम Dr Govind K. Agrawal पिता का नाम

गोत्र आवेदक की जन्म तारीख शिक्षा

मूल निवासी-प्रदेश जिला तालुका गाँव

आवेदक के घर का पता 6, Ballishwar Bungalows, Opp India Colony, Bopal, Ahmedabad

..... Pin :

मोबाईल: 9926380296 फोन: Email-ID :

२) व्यवसाय/कम्पनी का नाम Shalby Hospitals व्यवसाय/कार्य/पद Doctor

आवेदक के व्यवसाय/कार्य का पता Shalby Hospitals, Opp Karnavati Club, S G Road, Ahmedabad

..... Pin :

मोबाईल: 9924233966 फोन: Email-ID :

कृपया पत्रव्यवहार कार्यालय निवास के पते पर करें।

३) जीवन साथी का नाम

जन्म तारीख विवाह की तारीख

शिक्षा मोबाईल:

४) अन्य विशेष जानकारी (अन्य संस्था की सदस्यता, रुचि एवम् सेवा कार्य का क्षेत्र)

५) परिवार का विवरण

बच्चों के नाम	जन्मतिथी	शिक्षा	व्यवसाय/कार्य	विशेषता/रुचि
१.
२.
३.
४.